



भारतीय विद्या भवन में पूर्णानंद फाउण्डेशन द्वारा विद्यार्थियों में परीक्षा का भूत भगाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को जानकारी देते अध्यात्मिक गुरु श्री रमेशजी जैन। (फोटो : मिलाप)

WORLD CLASS TREATMENT

आपका आप कमचोरी से का शरीरपाल को बचाने से अपने वैद्यकीय जीवन में संतुष्ट नहीं हैं या विरंग के छोटा होने के कारण शर्मिन्दागी महसूस कर रहे हैं तो आज ही, भारत के प्रसिद्ध चेम्सा स्पेशलिस्ट डॉ. राय से मिलें।

नर्सों की कमचोरी के लिए दवाओं के वैदिक बर्दाह काल माहौल का इस्तेमाल किया जाता है।

पुरुषों के बर्दाह उपकरण बनाने का और संतान के लिए विशेष उपकरण

DR. RAI
Estd: 1950

डॉ. राय क्लीनिक सेंट केरिग रोड, एम्बेर टॉपीय के पास, सिकन्दराबाद, फोन: 27807796, 27717839

Oldest Clinic with Latest Technology

सकारात्मक सोच से हर कार्य संभव : रमेशजी जैन

हैदराबाद, 6 फरवरी-(मिलाप ब्यूरो) 'व्यक्ति अपने अवचेतन मन में नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक सोच रखे, तो वह हर कार्य को संभव कर सकता है। व्यक्ति बिना लक्ष्य के कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता।'

आज भारतीय विद्या भवन में पूर्णानंद फाउण्डेशन द्वारा विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अध्यात्मिक गुरु श्री रमेशजी जैन ने कहा कि व्यक्ति की विफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी नकारात्मक सोच है। व्यक्ति की नकारात्मक सोच ही उसके कार्य के साकार होने में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अवचेतन मन में जैसी सोच होगी, वही बाद में साकार रूप ले लेती है। नकारात्मक सोच के परिणाम सदैव ही नकारात्मक होते हैं। व्यक्ति की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि व्यक्ति पहले नकारात्मक ही सोचता है।

श्री जैन ने आगे कहा कि अभिभावक ही अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं।

इसीलिए बच्चों से पहले अभिभावक अपने आप को समझने का प्रयास करें। बच्चों को नकारात्मक सोच से दूर कर उनके जीवन को संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें, क्योंकि हर बच्चा प्रतिभाशाली है, बस उसे संवारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने आप पर विश्वास रखें, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। माता-पिता एवं अध्यापकों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों पर विश्वास करें।

श्री रमेशजी जैन ने उदाहरण देते हुए कहा कि जानवर को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, जबकि व्यक्ति को तैरना सीखना पड़ता है। क्योंकि जानवर डरते नहीं, इसीलिए तैर लेते हैं और व्यक्ति डूबने के भय के कारण तैर नहीं पाता। उसका भय खत्म होने के बाद ही वह आसानी से तैर लेता है। उन्होंने कहा कि जीवन में जब तक भय है, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने मन में हर कार्य को करने का विश्वास पैदा करे और प्रतिदिन ध्यान करते हुए भीतर सकारात्मक सोच भरें।

श्री जैन ने विद्यार्थियों को जीवन के 10 गुण रहस्य बताते हुए कहा कि व्यक्ति सबसे पहले अपने भीतर सफल होने का विश्वास जागरूक करें। अपने अवचेतन मन में केवल सकारात्मक सोच को ही स्थान दें। उन्होंने कहा कि जीवन में जब तक ध्येय नहीं होगा, तब तक कुछ भी साधा नहीं जा सकता। जीवन में सफल होने के लिए समय का पालन कर समयानुसार योजना बनाकर उसी के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि जीवन को तनाव, भय तथा चिड़चिड़ाहट से दूर रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग इत्यादि के साथ-साथ संगीत, नृत्य, हस्त्य तथा खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि अपनी स्मृति को बढ़ाने के लिए ब्रेन गैम्स खेलते हुए दैनिक घटनाओं को याद करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जीवन में बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। अपने भीतर व्यापक परीक्षा के भूत को भाग्यें। अंत में उन्होंने कहा कि सदैव अपने माता-पिता से प्रेम कर उनका आदर करें। अवसर पर भारी संख्या में बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई

श्री हीरालाल मायछ संग श्रीमती लक्ष्मीदेवी मायछ

जीवन वसंत की बगिया में खुशियाँ अति है छाई।
मंगल परिणय की रजत जयंती पर बधाई हो बधाई।।

शुभकामनाओं सहित :

मोहिनी देवी (बहन) मनोज - कंचन (भांजा-बहू) फर्म
Mahalakshmi Jewellers Hashmatpet, Sec'bad. Ph : 9849406326

मुन्नालाल मांडन, किशनलाल मांडन, महावीर प्रसाद मांडन फर्म
Shivam Jewellers Pot Market, Sec'bad. Ph : 9246335537

आज परिणय की 20वीं वर्षगांठ

हार्दिक बधाई

परिणय के 20वीं वर्षगांठ की सुमधुर पैदा है आई...
देते हैं सह-कुटुम्ब आपकी हार्दिक शुभकामना एवं बधाई...

श्री भगवानदास सांखला-सुनीता सांखला

(पुत्र-पुत्रवधू : स्व. श्री ईश्वरलालजी सांखला)

शुभकामनाओं सहित श्रीमती रामेश्वरीबाई (मा) एवं सांखला परिवार
मंगलहाट, हैदराबाद. ऑ.प्र. फोन : 65526330, 9247337807

सांखला चाट एण्ड कैटरर्स मंगलहाट बालाजी प्रणव गिठाईवाला शिवरामपल्ली
बालाजी प्रणव कैमिली दावा शिवरामपल्ली जय श्री कृष्ण

शुभविवाह की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई

श्री सुरेन्द्र कुमार पित्ती- श्रीमती जमुना पित्ती

नयनों की कोर में, प्रीत की डोर में।
साथ सुहाना बना रहे आपका हर दौर में।।

शुभकामनाओं सहित:

25 वर्षगांठ

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री प्रवीण जोशी एवं श्रीमती नंदा जोशी

को मंगल परिणय की पच्चीसवीं वर्षगांठ (रजत जयंती) के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

समस्त पुरेचा व्यास परिवार, सिकन्दराबाद
फर्म : **जानकीदास एण्ड सन्स**
बालानगर - सिकन्दराबाद

- जे.के. बेयरिंग्स, सिकन्दराबाद
- जानकीदास इंजीनियरिंग कम्पनी, सिकन्दराबाद एवं समस्त कर्मचारी

बनेगा भूमिगत...

प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। आज यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नगर निगम आयुक्त कृष्णा बाबू ने कहा कि दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था, तो केन्द्र ने दिल्ली नगर निगम को 2,000 करोड़ रुपये दिये थे। हैदराबाद में होने वाला आयोजन उससे काफी बड़ा है, जिसमें 198 देशों के मिनिस्ट्रीयल प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसलिए इसके लिए अधिक तैयारियाँ करनी होंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा कई सड़कों को आदर्श रूप में निर्मित करना होगा। नागरिक सुविधाएँ भी स्थापित करनी होंगी। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के रोड नं. 36 को आदर्श रूप में विकसित करने की योजना बनाई गयी है।

तक किया जाएगा।
संपत्ति कर वसूली में तेजी कृष्णा बाबू ने कहा कि निगम ने अब तक 410 करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूला है। जारी वर्ष में 650 करोड़ रुपये का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए जारी वसूली प्रक्रिया की गति को और तेज करना अनिवार्य है। निगमाधिकारी बकायादारों को बार-बार याद दिला रहे हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर संपत्ति कर अदा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया गया है। निगमायुक्त ने कहा कि उन्हें रेड नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों से भी संपत्ति कर वसूला जाएगा। सरकारी भवनों के बारे में भी सरकार से कहा गया है और अगले सप्ताह निगम संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने तथा लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा।

बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए 800 करोड़ केन्द्र से मांगे
जीएचएमसी ने आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस ऑफ पाटीज (बायोलोजिकल डायवर्सिटी) के उपलक्ष्य में शहर में नागरिक सुविधाएँ स्थापित करने, संबंधित मार्गों को आदर्श सड़कें बनाने एवं फुटपाथों का निर्माण करने हेतु 800 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मांगे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने

शुभ विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई

हीरालाल मायछ संग लक्ष्मीदेवी मायछ

मंगलमय हो जीवन सारा, मंगल बेला आई।
परिणय की रजत जयंती पर, बधाई हो बधाई।।

शुभकामनाओं सहित : श्रीमती कमला बाई (माताजी)
श्रीमती गीतादेवी (भाभी), छगनलाल-राजेश्वरी,
पूनमचन्द-मंजुदेवी, घनश्याम-संगीता (अनुज-बहू),
शिवकुमार, आकाश, आशीष, सूरज,
हार्तिक, कन्हैया (अनुज-पुत्र) एवं मायछ परिवार

Firm
SIDHI VINAYAK SILVER
Pot Market, Sec-bad
Ph: 27811834, Cell: 9849164384

श्री सुरेन्द्र कुमार पित्ती- श्रीमती जमुना पित्ती

नयनों की कोर में, प्रीत की डोर में।
साथ सुहाना बना रहे आपका हर दौर में।।

शुभकामनाओं सहित:

श्रीमती चन्द्रकला-श्री वजरंगलाल अग्रवाल, श्रीमती शकुन्तला-श्री पूनमचन्द अग्रवाल
श्रीमती प्रेमलता-श्री शंकरलाल अग्रवाल, श्रीमती कान्ता-श्री दिनेश अग्रवाल
श्रीमती रुपा-श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती संतोष-श्री रमेश कुमार अग्रवाल
श्रीमती कीर्ति-श्री सुनील कुमार अग्रवाल,
श्रीमती सरिता-श्री संतोष अग्रवाल (वहन-वहनोई)
गोविन्द पित्ती-नेहा पित्ती (पुत्र-पुत्रवधू), नितिन पित्ती (पुत्र)

शुभ विवाह की रजत जयंती पर बधाई

श्री सुरेन्द्र पित्ती संग श्रीमती जमुना पित्ती

जीवन बसंत की बगिया में खुशियाँ अति हैं छाई।
शुभविवाह की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई हो बधाई।।

शुभकामनाओं सहित :

राजगोपाल - संगीता (साला-सलहेली)
रोहित (भतीजा), विधिषा (भतीजी)
राधा-आनन्द (साली-साइ)
रश्मी (भतीजी), नमन (भतीजा)

फर्म : **सत्यनारायण राजगोपाल अग्रवाल (ताण्डूर)**

श्री रुपचंदजी म.सा. का आगामी चातुर्मास हेतु विन्ती कांठा प्रान्त की ओर से...

सकल कांठा प्रान्त के तत्वावधान में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन छात्रावास राणावास नगर में परम पुज्य दिव्य विभूति श्रमण सुर्य १००८ मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी म.सा. के सुशिष्य लोकमान्य संत श्रमण संघीय वरिष्ठ प्रवर्तक शिरे राजस्थान श्री रुपचंदजी म.सा. "रजत" एवं श्रमण संघीय सलाहकार मरुधरा भूषण उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनिजी म.सा. आदि ठाणा का आगामी सन् 2012 का चातुर्मास विधानगरी राणावास की पुण्यधरा पर हो।

राणावास यह स्थल है जहाँ सन् 1969 में पुज्य गुरुदेव श्रमण सुर्य मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी म.सा. ने "चातुर्मास" किया था और कांठा प्रान्त ओसवाल साजना संघ पर उनकी असीम कृपा रही है। 43 वर्षों बाद ऐसा सुनहरा अवसर पुनः प्राप्त हो रहा है अतः गुरु भक्ति एवं समाज सेवा में हमें पीछे नहीं रहना है।

बन्धुवर यदि सकल कांठा प्रान्त का स्वप्न साकार होता है तो इससे राणावास विधानगरी कांठा प्रान्त गुरुजनों के पवित्र चरणों से पावन हो जायेगा और विशेष संघ उत्थान व समाज उत्थान व संस्थानों को प्रगती के नये आयाम स्थापित हो सकेंगे। गुरुदेवों की मुखारबिंद से जिनवाणी एवं पियुष पावन वाणी से प्रतिदिन प्रवचन, प्रार्थना सुनने का सुअवसर मिलेगा।

अतः कांठा प्रान्त के सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मारवाड़ के "बोपारी घाम" में होली चातुर्मास पर, बुधवार दि. 7 मार्च 2012 को उपस्थित होकर गुरुदेवों के श्री चरणों में पुरजोर विन्ती रखें।

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन छात्रावास

मारवाड़, राणावास (पाली) राजस्थान
अध्यक्ष : नौरतनमल गुन्देवा-92461 55811
मंत्रि : शान्तिलाल पटवा-09414524423